

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : BALI

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131)

Print Date : 15-06-2022 5:38 PM

Fee Receipt No	: 202202153003216	Receipt Date	: 15/06/2022
Name	: KAMAL SHREE MALI ADVOCATE BALI, SANJEEV DANGI SON OF NAVEEN DANGI MEGHWAL	Document S. No.	: 202201153002956
Address	: BALI		
Document Type	: Inspection And Search		
Face Value	: ₹ 0	Evaluated Value	: ₹ 0
Ord-Registration Fee	: ₹ 0	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 0	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 0	Stamp Duty	: ₹ 0
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 750
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
From Year 2008 To Year 2022		Other than Cash	: ₹ 750
		Total Amount	: ₹ 750

Mode of Payment (#Modè Number Amount #)

e-Registration Receipt RJ1661961660922 ₹ 750

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

**KAMAL SHRIMALI
ADVOCATE**



Mob. 9610005201, 9829105535
Res. Nehru Colony Falna Station
Off. Main Market, Falna Station

Date : 15.06.2022

Sub: Title Opinion Report certifying non encumbrance of the of the agriculture land Khata no 908 in Khasara 2290 Total 0.8200 Hect., & Khata No. 765 in Khasara No. 2279 Total 0.8200 Hect. Applicant have 1/2 share. Land is situated at village Bali Tehsil Bali Dist- Pali (Rajasthan) Belonging to **Shri Sanjeev Dangi S/o Shri Naveen Dangi Caste Meghwal Village Bali Teshil Bali Dist. Pali (Rajasthan)**

I refer to your letter No dated requesting me to furnish non encumbrance and certify and submit the Title cum Opinion Report about the clear and marketable title to the above property to be mortgaged for securing the credit facility (s) granted/proposed to be granted to **Shri Sanjeev Dangi S/o Shri Naveen Dangi Caste Meghwal Village Bali Teshil Bali Dist. Pali (Rajasthan)**

S. No.		
1	Description and Area of the property proposed to be mortgaged. Specific number(s) and address of property along with boundaries and measurements and measurements.	This Agriculture Land is situated at village Bali Tehsil Bali Dist- Pali (Rajasthan) Meusrment of Property – Khata no 908 in Khasara 2290 Total 0.8200 Hect., & Khata No. 765 in Khasara No. 2279 Total 0.8200 Hect. Applicant have 1/2 share.
2	Nature of Property (Whether Agricultural, Non-Agricultural, Commercial, Residential. If Non Agricultural, the reference & date of conversion order from the competent authority should also be mentioned.)	Agriculture Land
3	Name of the Mortgagor/Owner and status in the Account i.e. borrower or guarantor and whether individual Sole Proprietor, Partner, Director, karta or Trustee, In case the Mortgagor is Partner/Director/ Trustee who is mortgaging the property on behalf of Partnership/ Company/ Memorandum & Articles of Association/ Trust Deed etc Whether examined and verified.	Owner cum Borrower - Shri Sanjeev Dangi S/o Shri Naveen Dangi Caste Meghwal Village Bali Teshil Bali Dist. Pali (Rajasthan)
4	Whether any minor lunatic or un-discharged insolvent is involved Confirm that the Mortgagor has sufficient capacity to contract Precautionary steps to be taken.	N/A
5	Whether the property is Freehold or leasehold. If Leasehold. If Leasehold then period of lease and if Freehold whether Urban Land Ceiling Act Applies and permissions to be obtained.	This is Agriculture Land. Urban land Ceiling Act does not applies hence no permission required.
6	Source of Property i.e. Self acquired of Ancestral, If Ancestral then mode of succession and whether original will/Probate is available.	Self Acquired
7	Whether the Mortgagor is Co-owner/Joint owner and/or any partition of the Property is made between the members of the family through Partition Deed, If yes, whether original Registered Partition Deed is available or it is only a family settlement.	N/A

KAMAL SHRIMALI
ADVOCATE



Mob. 9610005201, 9829105535
Res. Nehru Colony Falna Station
Off. Main Market, Falna Station

8	Whether the Mortgagor is in exclusive possession of the property or it is leased/ rented out to third party.	Mortgagor is in exclusive possession of the property
9	Whether the Property is mutated in municipal /revenue records and Mortgagor's name is reflecting and if not the reason thereof.	yes
10	Whether any restriction for creation of Mortgage is imposed under Central /State/ Local Laws, If yes then specify whose consent or permission would be required for creation of mortgage.	No
11	Whether all the original Title Deeds including antecedent Title Deeds and other relevant documents are available. Please give detailed list. 8	1- Land Certificate 2- Jama bandi
12	Whether the Advocate has personally visited the Sub Registrar/ Revenue/Municipal office and examined the records.	Yes
13	Whether the Search is being made for the period of 30 years, If no, reason thereof.	For the period of 15 years.
14	Details of documents examined/ scrutinized/ (This should be in chronological order with serial numbers, type/ nature of document, date of execution, parties, date of registration details including the details of revenue/ society records etc.	1- Land Certificate 2- Jama bandi
15	Tracing to chain of title in favour of the Mortgagor/ owner starting from the earliest document available, The nature of document/ Deed conveying the title should be mentioned with description of parties along with the type of right it creates.	1- Land Certificate 2- Jama bandi
16	Whether there is any doubt/suspicion about the genuineness of the original documents, If yes, then specify.	No
17	The final Certificate of the Advocate confirming that title of the property(s) to be mortgaged is examined by him and the same is/are clear and marketable.	Annexed Separately
18	List of documents to be deposited for creation of Mortgage by the Mortgagor including any additional document required in addition to the documents available.	1- Land Certificate 2- Jama bandi
19	Whether any additional formalities to be completed by the proposed mortgagor. If yes state specifically in case of -flats-----/ property(s) in Co-op Societies, whether allotment letter, possession..... letter, share certificate, affidavit, power of attorney etc is required.	No

KAMAL SHRIMALI
ADVOCATE
Office: College Road
Main Market, FALNA (Raj.)
Resi.: Nehru Colony, FALNA
M.- 9829105535, 9610005201



CERTIFICATE OF TITLE

I have examined the original Title Deeds intended to be deposited relation to the schedule properly/(les) and offered as security by way of Registered/ Equitable / English Mortgage and that the documents of title referred to in the Opinion are valid evidence of Right, title and interest and that if the said Registered / Equitable Mortgage is created it will satisfy the requirements of creation of Registered/ Equitable Mortgage and I further certify that:

(Please specify the kind of mortgage)

1. I have examined the documents in detail, taking into account all the Guidelines in the check list vide Annexure C and the other relevant factors.

1 A. I confirm having made a search in the Land/ Revenue records. I do not find anything adverse which would prevent the Title holders from creating a valid mortgage I am liable / responsible, if any loss is caused to the Bank due to negligence on my part or by my agent in making search.

1 B. Following scrutiny of land Records/ Revenue Records and relative Title Deed I hereby certify the genuineness of the Title deeds. Suspicious / Doubt, if any, has been clarified by making necessary enquiries.

2 A There are no prior Mortgage /Charges/ encumbrances whatsoever, as could be seen from the encumbrance certificate for the period from **2008 to 2022 Receipt No 202202153003216** pertaining to the immovable property / (les) covered by above said Title Deeds the property is free from all Encumbrances.

2 B In case of second/ subsequent charge in favor of the bank there are no other mortgage / charges other than already stated in the loan documents and agreed to by the mortgage and the bank (Delete whichever is inapplicable)

3 Minor / (s) and his/their interest in the property/ (ies) is to the extent of N/A Specify the share of Minor with name, (strike out if not applicable.)

4 The Mortgage if created will be available to the Bank for the liability of the intending Borrower **Shri Sanjeev Dangi S/o Shri Naveen Dangi Caste Meghwal Village Bali Teshil Bali Dist. Pali (Rajasthan)**

5. I certify that **Shri Sanjeev Dangi S/o Shri Naveen Dangi Caste Meghwal Village Bali Teshil Bali Dist. Pali (Rajasthan)** has/have an absolute clear and Marketable title over the schedule property (ies) I further certify that the above title deeds are genuine and a valid mortgage can be created and the said Mortgage would be enforceable. There are no legal impediments for creation of the mortgage under any applicable law/ rules in force.

In case of creation Mortgage by deposit of title deeds we certify that the deposit of following title deeds/ documents would create a valid and enforceable mortgage.

1- Land Certificate

2- Jama bandi

There are no legal impediments for create on of the mortgage under any applicable law/Rules in force.

SCHEDULE OF THE PROPERTY/IES

This Agriculture Land is situated at village Bali Tehsil Bali Dist- Pali (Rajasthan) Meusrment of Property – Khata no 908 in Khasara 2290 Total 0.8200 Hect., & Khata No. 765 in Khasara No. 2279 Total 0.8200 Hect. Applicant have 1/2 share.

Date : 15.06.2022

Place : Falna

KAMAL SHRIMALI
ADVOCATE
Signature of the Advocate
Office: College Road
Main Market, FALNA (Raj.)
Resi.: Nehru Colony, FALNA
M.- 9829105535, 9610005201

प्ररूप-11
(नियम- 7(1) देखिए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगरपालिका मण्डल बाली(पाली) राज.

मामला सं. 2543-2546

और वर्ष

श्री संजीव डांगी पुत्र नवीन डांगी जाति-मेघवाल,
निवासी-बाली, तहसील-बाली, पाली राज.

आवेदक

विषय :- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

दिनांक 3/10/23

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :-

(1) उपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन निम्नलिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है।

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल
बाली/पाली	बाली	2290	0.8200 हैक्टर

(2) आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथ पत्र, की-मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

(3) यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमती रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है, कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम की धारा 63 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिवृत्ति अधिकार निर्वापित करके भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

(4) अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया है कि खसरा सं. 2290 कुल रकबा 0.8200 हैक्टर की ग्राम बाली तहसील बाली में स्थित भूमि पर आवेदक के अभिवृत्ति अधिकारों को उक्त भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि नियमों विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

(5) आवेदक द्वारा उस भूमि को जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है यथाविहित प्रीमियम नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रमारी के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात् स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।

(6) इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 3-10-23 को पारित किया गया।

o/c

प्राधिकृत अधिकारी
नगर पालिका क्षेत्र, बाली
दिनांक 3/10/23

सं. 2544-2546

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी-

1. सचिव/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, स्थानीय प्राधिकरण जयपुर।
2. श्रीमान् तहसीलदार बाली को पूर्वोक्त भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
3. श्री संजीव डांगी पुत्र नवीन डांगी जाति-मेघवाल, निवासी-शिवाजी नगर सिविल लाइन्स, जयपुर राज.

o/c

प्राधिकृत अधिकारी
नगर पालिका क्षेत्र, बाली



जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- बाली
पटवार हल्का :- बाली
भू.अभि.नि. :- बाली
तहसील :- बाली
जिला :- पाली

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2076 - 2079 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 1051
खाता संख्या पुराना :- 230

काश्तकार का नाम:-

1. नगरपालिका.बाली हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1002	0.2300	गै.मु.रास्ता	0.2300	0.00	स्वीकृत नामांतरकरण : 35 02/11/2021	शुद्धिपत्र
1007	0.5600	गै.मु.रास्ता	0.5600	0.00	स्वीकृत नामांतरकरण : 2837 12/01/2023	न्याया. आदेश
1013	0.1200	गै.मु.रास्ता	0.1200	0.00	स्वीकृत नामांतरकरण : 2865 28/03/2023	सर्मपण
1058	0.3100	गै.मु.रास्ता	0.3100	0.00	स्वीकृत नामांतरकरण : 2905 26/05/2023	न्याया. आदेश
1078	0.1000	गै.मु.रास्ता	0.1000	0.00	स्वीकृत नामांतरकरण : 2935 25/07/2023	सर्मपण
1080	0.0900	गै.मु.रास्ता	0.0900	0.00	स्वीकृत नामांतरकरण : 2952 22/09/2023	सर्मपण
1081/3582	0.0200	गै.मु.रास्ता	0.0200	0.00	स्वीकृत नामांतरकरण : 2967 11/10/2023	सर्मपण
1082	0.1200	गै.मु.रास्ता	0.1200	0.00	स्वीकृत नामांतरकरण : 2968 14/12/2023	सर्मपण
1094	0.0100	गै.मु.बेरा	0.0100		स्वीकृत नामांतरकरण : 3006 27/12/2023	सर्मपण
1095	0.0300	गै.मु.सड़ा	0.0300	0.00		
1096	1.1800	चाही दोयम	0.1200	3.84		
		जाव दोयम	1.0600	11.66		
1097	1.3000	गै.मु.श्मशान	1.3000			
1137	0.5000	गै.मु.रास्ता	0.5000	0.00		
1153	0.3200	गै.मु.रास्ता	0.3200	0.00		
1162	0.0800	गै.मु.रास्ता	0.0800	0.00		
1164	0.1400	गै.मु.रास्ता	0.1400	0.00		
1166	0.6300	गै.मु.रास्ता	0.6300	0.00		
1214	0.9000	गै.मु.रास्ता	0.9000	0.00		
1229	0.1000	गै.मु.रास्ता	0.1000	0.00		
1234	0.0500	गै.मु.मन्दिर	0.0500			
1235	0.1900	गै.मु.मन्दिर	0.1900			
128	0.1000	गै.मु.रास्ता	0.1000	0.00		
1299	1.1000	गै.मु.रास्ता	1.1000	0.00		
1310	0.0300	गै.मु.रास्ता	0.0300	0.00		
1322	0.3400	गै.मु.रास्ता	0.3400	0.00		
1339/3656	0.6600	बंजड़	0.6600	0.66		
1340	0.1000	गै.मु.आबादी	0.1000	0.00		
1368	0.0500	गै.मु.रास्ता	0.0500	0.00		



जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- बाली
पटवार हल्का :- बाली
भू.अभि.नि. :- बाली
तहसील :- बाली
जिला :- पाली

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2076 - 2079 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 1051
खाता संख्या पुराना :- 230

1835	0.7200	गै.मु.रास्ता	0.7200	0.00
1855	0.0200	गै.मु.रास्ता	0.0200	0.00
1863	0.7500	बारानी अब्बल	0.7500	5.25
187/3537	0.2900	गै.मु.रास्ता	0.2900	0.00
1874	1.0200	गै.मु.रास्ता	1.0200	0.00
19	0.1800	गै.मु.रास्ता	0.1800	0.00
1900	1.2700	गै.मु.रास्ता	1.2700	0.00
1903	1.4500	गै.मु.खड्डा	1.4500	
1904	2.6100	गै.मु.खड्डा	2.6100	
1906	0.1300	गै.मु.तेड़	0.1300	
1907	0.0900	गै.मु.तेड़	0.0900	
1908	0.1100	गै.मु.तेड़	0.1100	
1909	0.1000	गै.मु.तेड़	0.1000	
1912	0.1900	गै.मु.तेड़	0.1900	
1918	0.1100	गै.मु.तेड़	0.1100	
1919	0.1100	गै.मु. लाटा	0.1100	
192	0.1700	चाही प्रथम	0.0700	2.87
		जाव अब्बल	0.1000	1.40
1924	0.0200	गै.मु.बावडी	0.0200	
1925	0.0100	गै.मु.बावडी	0.0100	
1926	0.0600	गै.मु.सडा	0.0600	0.00
1930	0.2700	गै.मु.रास्ता	0.2700	0.00
1933	1.8600	गै.मु.रास्ता	1.8600	0.00
1936	0.0400	गै.मु. लाटा	0.0400	
1939	0.0300	गै.मु.रास्ता	0.0300	0.00
1945	1.3000	गै.मु.रास्ता	1.3000	0.00
1951	0.0200	गै.मु.मुम्किन	0.0200	
		दरगाह		
1952	0.0200	गै.मु.धर्मशाला	0.0200	
1953	1.9600	बारानी सोयम	1.9600	7.84
1954	0.0800	गै.मु.तेड़	0.0800	
1956	0.0700	गै.मु.तेड़	0.0700	
1957	0.0700	गै.मु.तेड़	0.0700	
197	0.0700	गै.मु.रास्ता	0.0700	0.00
1970	0.4000	गै.मु.रास्ता	0.4000	0.00
1992	0.0300	गै.मु.बेरा	0.0300	
पिचका				
20/3646	0.5100	बारानी दोयम	0.5100	2.55



जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- बाली
पटवार हल्का :- बाली
भू.अभि.नि. :- बाली
तहसील :- बाली
जिला :- पाली

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2076 - 2079 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 1051
खाता संख्या पुराना :- 230

236/3595	0.0100	गै.मु.बावडी	0.0100	
240	0.2600	गै.मु.रास्ता	0.2600	0.00
2407	0.1400	गै.मु.रास्ता	0.1400	0.00
2408	0.2400	गै.मु.आबादी	0.2400	0.00
2425	0.0600	गै.मु.आबादी	0.0600	0.00
2426	5.8100	गै.मु.आबादी	5.8100	0.00
2427	0.0300	गै.मु.रास्ता	0.0300	0.00
2433	0.3000	गै.मु.आबादी	0.3000	0.00
2451	0.1600	गै.मु.रास्ता	0.1600	0.00
2470	1.1600	गै.मु.रास्ता	1.1600	0.00
2472	0.3600	गै.मु. कब्रिस्तान	0.3600	
2473	0.0900	गै.मु.रास्ता	0.0900	0.00
2474	0.7300	गै.मु.रास्ता	0.7300	0.00
2475	0.4900	गै.मु. कब्रिस्तान	0.4900	
2476	0.2200	गै.मु.समाधी	0.2200	
2479/3625	0.0200	गै.मु.प्याऊ	0.0200	0.00
2481	0.0500	गै.मु.रास्ता	0.0500	0.00
2485	0.0800	गै.मु.रास्ता	0.0800	0.00
2492/3572	0.6600	बारानी दोयम	0.6600	3.30
2503	3.0300	गै.मु.रास्ता	3.0300	0.00
2505	0.0200	गै.मु.आबादी	0.0200	0.00
2506	0.0200	गै.मु.आबादी	0.0200	0.00
2507	0.0100	गै.मु.आबादी	0.0100	0.00
2510	0.0300	गै.मु.आबादी	0.0300	0.00
2512	0.0100	गै.मु.बेरा	0.0100	
2513	0.0600	गै.मु.सडा	0.0600	0.00
2514	0.1000	गै.मु.आबादी	0.1000	0.00
2515	1.2500	गै.मु.आबादी	1.2500	0.00
2538	0.4700	बारानी अव्वल	0.4700	3.29
2543	0.4400	गै.मु.रास्ता	0.4400	0.00
2545	0.0500	गै.मु.ईदगाह	0.0500	
2546	0.0100	गै.मु. कब्रिस्तान	0.0100	
2547	0.0100	गै.मु.बेरा	0.0100	
2548	0.0200	गै.मु.चबुतरा	0.0200	
2549	3.3500	गे.मु.	3.3500	
2550	0.5900	गै.मु.रास्ता	0.5900	0.00
2552	0.0100	गै.मु.मकान	0.0100	
2561	0.2300	गै.मु.श्मशान	0.2300	



जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- बाली
पटवार हल्का :- बाली
भू.अभि.नि. :- बाली
तहसील :- बाली
जिला :- पाली

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2076 - 2079 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 1051
खाता संख्या पुराना :- 230

3351	0.2100	गै.मु.खारच	0.2100	
3353/3666	0.3200	गै.मु.आबादी	0.3200	0.00
3354	0.0800	गै.मु.आबादी	0.0800	0.00
3357	39.7700	गै.मु.आबादी	39.7700	0.00
3357/3659	0.2000	गै.मु.आबादी	0.2000	0.00
3358	0.0700	गै.मु.रास्ता	0.0700	0.00
3361	0.0200	गै.मु.मन्दिर	0.0200	
3366	0.0300	गै.मु.मन्दिर	0.0300	
3368	0.3750	बारानी सोयम	0.3750	1.50
337	2.3400	गै.मु.रास्ता	2.3400	0.00
3378	0.0700	गै.मु.रास्ता	0.0700	0.00
338	2.5000	गै.मु.रास्ता	2.5000	0.00
3380	0.6000	गै.मु.रास्ता	0.6000	0.00
3381	0.2400	गै.मु.रास्ता	0.2400	0.00
3446	0.0400	गै.मु.रास्ता	0.0400	0.00
3450	0.1200	गै.मु.रास्ता	0.1200	0.00
3458	0.1600	गै.मु.रास्ता	0.1600	0.00
3478	0.6200	गै.मु.रास्ता	0.6200	0.00
352	0.1700	बारानी अव्वल	0.1700	1.19
355	0.1700	बारानी अव्वल	0.1700	1.19
359	0.2300	गै.मु.रास्ता	0.2300	0.00
374	0.5600	गै.मु.रास्ता	0.5600	0.00
376	0.2500	गै.मु.	0.2500	
377	1.0200	गै.मु.	1.0200	
378	0.1900	गै.मु.रास्ता	0.1900	0.00
3810/269	0.0071	चाही प्रथम	0.0071	0.29
3813/269	0.0072	चाही प्रथम	0.0072	0.30
3888/2240	0.2800	चाही सोयम	0.1372	2.74
		जाव सोयम	0.1428	1.00
3889/2240	0.2800	चाही सोयम	0.1372	2.74
		जाव सोयम	0.1428	1.00
3892/2251	0.2300	रिसोर्ट प्रयोजनार्थ	0.2300	
3893/2251	0.0060	रिसोर्ट प्रयोजनार्थ	0.0060	
3990/2294	1.1385	चाही दोयम	1.1385	36.43
3992/2297	0.2895	चाही अव्वल	0.2895	
4011/2553	0.2000	बारानी दोयम	0.2000	1.00
4012/2553	0.2310	बारानी दोयम	0.2310	1.16
448	0.1400	गै.मु.रास्ता	0.1400	0.00



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 169 एच)
पृष्ठ संख्या :- 1 of 1

ग्राम का नाम :- बाली
पटवार हल्का :- बाली
भू.अभि.नि.क्षेत्र :- बाली
तहसील :- बाली
जिला :- पाली
काश्तकार का नाम :-

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2076 - 2079

भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार

जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी

क्षेत्रफल की इकाई :- हैक्टेयर

खाता संख्या नया :- 908

खाता संख्या पुराना :- 1035

1. संजीवडांगी पुत्र नवीनडांगी हिस्सा- पूर्ण जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
2290	0.8200 चाही दोयम	0.8200	26.24	स्वीकृत नामांतरकरण : 72 16/11/2022 शुद्धिपत्र	
कुल खसरे -1	0.8200		26.2400		

आवेदक की सूचना :-

आवेदक का नाम - Ishwar Singh

पता - Bali

प्रतिलिपि सं. - 27829

शुल्क - 30 Rs/-

आई.पी. - 10.70.244.252

दिनांक व समय -12/May/2023 05:57:00 PM

नकल जारी करने का स्थान - कियोस्क कोड :- K118146392, पता :- OPP COURT BALI PALI

